



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 18]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 3—मई 9, 2008 (वैशाख 13, 1930)

No. 18]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 3—MAY 9, 2008 (VAISAKHA 13, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 03 मई 2008

सेना शाखा

सं. 207, दिनांक 04 अप्रैल 2008—राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले. के पद पर दिनांक 10 जून 2006 से)

निम्नलिखित अधिकारियों को भारत सरकार के राजपत्र जो कि दिनांक 12 मई 2007 को प्रकाशित हुआ है, में सम्मिलित किया जाता है:—

अभिषेक कुमार (आईसी-67975एन), इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता नीरज मेहता (आईसी-67974एल), इन्फैन्ट्री एवं आनंद गोरेव धिश्रा (आईसी-68064के), मैक इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता आशुतोष नोटियाल (आईसी-68063एफ), इन्फैन्ट्री के नोचे प्रदर्शित किया जाए।

मिलेश चौधरी

मेजर

एमएस (एमएस-8बी)

एकांकित मुख्यालय-रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

प्रशासन निदेशालय (सिव)

सं. 208, दिनांक 04 अप्रैल 2008—राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत उनके नामों के आगे उल्लिखित समयावधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में नियुक्त करते हैं:—

(क) श्रीमती बीना शर्मा 01 फरवरी 2008 से 23 फरवरी 2008

(ख) श्रीमती एम पाहुजा 04 फरवरी 2008 से 23 फरवरी 2008

(ग) श्रीमती मीना चौध 01 फरवरी 2008 से 23 फरवरी 2008

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई हैं तथा प्रशासकीय कारणों अथवा नियमित पदधारक के उपलब्ध होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती हैं।

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

वायु सेना

सं. 209, दिनांक 07 अप्रैल 2008--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों को जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) दिनांक 28 दिसम्बर 2006 से प्रदान किया गया था, उन्हें उनके नाम के आगे दी गई तिथि से पूर्व तिथि (Antedate) प्रदान की जाती है।

वैमानिक अभियांत्रिकी शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर एम भी कम्बले (28952), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर अनिल कुमार पानीग्रही (28929), ए ई (एम), फ्लाईंग ऑफिसर जी के बैसेगासुन्दम (28992), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर एच पी सिंह तोमर (28961), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर विवेक माहेश्वर (28941), ए ई (एच), फ्लाईंग ऑफिसर अजय शिव कुमार (28934), ए ई (एम), फ्लाईंग ऑफिसर दिवाकर पुरोहित (29330), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर अरूण उपाध्याय (28936), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर एस एस स्वामी (29331), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर प्रवीण कुमार (28931), ए ई (एम), फ्लाईंग ऑफिसर टी वंमशीधर (28950), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर पी के बालन (29332), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर एस ए जयराम (28938), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर एक जयासेलन (28937), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर संदीप सिंह (28951), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर विजय शर्मा (28933), ए ई (एम), फ्लाईंग ऑफिसर दिनेश सिंह (29328), ए ई (एम), फ्लाईंग ऑफिसर सी रमेश (29134), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर बाबू कार्तिकेयन (29327), ए ई (एम), फ्लाईंग ऑफिसर एस एस पिल्लयै (28939), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर एस के पाठक (28964), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर आर एन यादव (28968), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर एन पी के सिंह (28965), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर अभिनव सक्सेना (28930), ए ई (एम), नरकपम एस सिंह (28932), ए ई (एम), आर मजूमदार (28969), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर एस भारद्वाज (28953), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर के के मिश्रा (29329), ए ई (एम), फ्लाईंग ऑफिसर वैभव लखनवाल (28935), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर चिराग अरोड़ा (28943), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर राहुल सिंह (28955), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर विवेक मिश्रा (28959), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर के जे सिंह (28970), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर आर के गुप्ता (28963), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर खुशीद आलम (28967), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर वी के चिमवेल (28954), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर वी सी भट्ट (28942), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर अनिखन शर्मा (28971), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर वरुण शर्मा (28957), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर एम ओजुक्कुम (28972), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर एस जी पांडे (28949), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर अरविन्द कुमार (28958), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर नवीन कुमार (28940), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर अभिषेक सक्सेना (28948), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर ए के अग्निहोत्री (28956), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर रजत शर्मा (28945), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर संतोष सैनी (28960), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर आलोक धर्माच (28944), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर ए गौतम (28946), ए ई (एल), फ्लाईंग ऑफिसर सुरेन्द्र घोष (28962), ए ई (एल), को पूर्व तिथि 28 दिसम्बर 2004 से (Antedate) प्रदान की जाती है।

एन विजय कुमार
विंग कमांडर, जेडपीओ-3 (जी)

सेना सचिव शाखा

सं. 210, दिनांक 07 अप्रैल 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं:-

नियमित सेना

(स्थायी कमीशन)

ले. जनरल के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आईसी, आर्म और ले. जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
मेजर जनरल बरतवाल डी एस (आईसी-24604), जाट, 01 अप्रैल 2007

मेजर जनरल के पी डी सामंता, एवीएसएम, वीएसएम (आईसी-23375), आर्टी, 03 सितम्बर 2007, से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18 अप्रैल 2007 से दी जाएगी।

मेजर जनरल एन मोहनो, एवीएसएम, वीएसएम (वी-00321), आरबीसी, 29 जून 2007

मेजर जनरल ए के लाम्बा (आईसी-23801), आर्टी, 14 अगस्त 2007

मेजर जनरल के मूल रैंक में

ब्रिगे. मिर्जी के एन (आईसी-25878), आर्टी, 02 जनवरी 2007, से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एम के गुप्ता (आईसी-31274), सिप्स, 01 सितम्बर 2007, से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एन बी सिंह, वीएसएम (आईसी-27942), ईएमई, 28 अगस्त 2007, से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मई 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. ए के मनन (आईसी-27943), इंजी., 02 अगस्त 2007, से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मई 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. ए एस चान्द (आईसी-27978), इंजी., 01 जून 2007

ब्रिगे. एच जे सिंह, एससी, वीएसएम (आईसी-30216), एएससी, 01 नवम्बर 2007, से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. राहुल कुमार (आईसी-31562), इंजी., 01 दिसम्बर 2007, से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. के गाजारिया (आईसी-31593), इंजी., 01 दिसम्बर 2007, से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. पवार एस एस (आईसी-25903), जाट, 01 दिसम्बर 2007, से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. जी एस नरुला (आईसी-27106), एओसी, 13 दिसम्बर 2007, से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एन बी पाण्डे (आईसी-30956), सिग्स, 01 जनवरी 2008, से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एन मोहनती (बी-321), आरबीसी, 01 मार्च 2006, से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी।

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आईसी, आर्म और ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

कर्नल टी एस खोन्ड (आईसी-35440), सिग्स, 01 जनवरी 2008, से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2006 से दी जाएगी।

कर्नल सुखीन्द्र जीत सिंह (आईसी-34110), आर्य, 01 जुलाई 2007, से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 सितम्बर 2006 से दी जाएगी।

एन. के. फूकन

एएमएस/एमएस (एम्स)

सं 211, दिनांक 08 अप्रैल 2008 -- राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कौशल)

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) रैंक में

एन के सुन्दरे (एमआर-04218के), 23 मई 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।

बी पी सिंह (एमआर-03470डब्ल्यू), 05 मई 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।

एस एस आनन्द (एमआर-03543एक्स), 07 जून 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।

के के शर्मा (एमआर-04128एच), 08 मई 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 मई 2007 से दी जाती है।

विनय राय (एमआर-04043एम), 07 जून 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 मई 2007 से दी जाती है।

सुवीर शर्मा (एमआर-04124एम), 05 मई 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 मई 2007 से दी जाती है।

एस एस पंवार (एमआर-04125पी), 16 जुलाई 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2007 से दी जाती है।

ए के शर्मा (एमआर-04221के), 17 जुलाई 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2007 से दी जाती है।

शैलेश रोहतगी (एमआर-04361डब्ल्यू), 30 जुलाई 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2007 से दी जाती है।

ए एस नरुला (एमआर-03738एच), 01 अगस्त 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2007 से दी जाती है।

के आर सलगोत्रा (एमआर-04126एक्स), 04 अगस्त 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2007 से दी जाती है।

जे जेना (एमआर-03736एक्स), 01 अगस्त 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 जुलाई 2007 से दी जाती है।

वाई एस शर्मा (एमआर-04410एन), 01 अगस्त 2007

एस कुमारवेलू (एमआर-3902ए), 01 अगस्त 2007

बी के चौपड़ा (एमआर-04133एन), 30 अगस्त 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 अगस्त 2007 से दी जाती है।

चन्द्र मोहन (एमआर-4223पी), 27 अगस्त 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 अगस्त 2007 से दी जाती है।

जी एस चौपड़ा (एमआर-4310एच), 27 अगस्त 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 अगस्त 2007 से दी जाती है।

बी के रत्न (एमआर-04411डब्ल्यू), 27 अगस्त 2007, वेतन व पेंशन पर बिना असर डाले काल्पनिक वरीयता 01 अगस्त 2007 से दी जाती है।

प्रकाश सिंह (एमआर-03679एफ), 01 सितम्बर 2007

गुप कैंप्टन (व समकक्ष) से एयर कोमोडोर (व समकक्ष)

बी के राय (एमआर-03580एल) (बी से-14450), 01 जनवरी 2007

लै. कर्नल से कर्नल (समकक्ष) के पद पर

बी चौधरी (एमआर-05497एम), 10 जून 2006, वेतन व पेंशन पर बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28 जनवरी 2006 से दी जाती है।

लै. कर्नल से कर्नल (टर्म स्केल) के पद पर

सर्जन कमलेश जे सी मोहनती (एमआर-03500एच), 16 दिसम्बर 2004

सर्जन कमान्डर के के रहेजा (एमआर-04534एच), 16 दिसम्बर 2004	लै. कर्नल के के अनेजा (एमआर-5229एच), 29 सितम्बर 2005
सर्जन कमान्डर के जी पौल (एमआर-03964ए), 16 दिसम्बर 2004	लै. कर्नल मिहिर नियोगी (एमआर-5232एच), 30 सितम्बर 2005
सर्जन कमान्डर एच अगन्नायकुल्लु (एमआर-04047एच), 16 दिसम्बर 2004	लै. कर्नल टी के साहा (एमआर-5598ए), 01 अक्टूबर 2005
सर्जन कमान्डर पी के सिंह (एमआर-04163एल), 16 दिसम्बर 2004	लै. कर्नल डी के जैन (एमआर-5367के), 19 अक्टूबर 2005
लै. कर्नल (श्रीमती) रीता डडवाल (एमआर-5503पी), 12 मई 2005	लै. कर्नल एस एस वैशम्पायन (एमआर-5474एल), 19 अक्टूबर 2005
लै. कर्नल वो के गुप्ता (एमआर-5365वाई), 14 मई 2005	लै. कर्नल बी के सिन्हा, वीएसएम (एमआर-4598एन), 21 अक्टूबर 2005
लै. कर्नल एस पी बी तुलपति (एमआर-4345वाई), 15 मई 2005	लै. कर्नल विजय सिंह (एमआर-5611वाई), 01 नवम्बर 2005
लै. कर्नल आर सी शर्मा (एमआर-4670वाई), 15 मई 2005	लै. कर्नल पी एस भाटिया (एमआर-5100पी), 05 नवम्बर 2005
लै. कर्नल आर के मुखर्जी (एमआर-4951पी), 22 मई 2005	मेजर के पद पर
लै. कर्नल एन श्रीनाथ (एमआर-5096एक्स), 26 मई 2005	मै रशीद (एमएस-14583वाई), (एमआर 08596ए), एएमसी, 15 मार्च 2007
लै. कर्नल एम के खट्टर (एमआर-5852वाई), 27 मई 2005	धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह (एमएस-14502एन) (एमआर-08526एफ), एएमसी, 28 अगस्त 2005
लै. कर्नल आर एस वासन्ती कुमार (एमआर-5437एक्स), 01 जून 2005	योगेन्द्र विधानी (एमएस-14465एल), (एमआर-08505एल), एएमसी, 29 जुलाई 2006
लै. कर्नल बी पी सिंह (एमआर-4952एक्स), 02 जून 2005	वाका राजा शेखर रेड्डी (एमआर-07571एफ), एएमसी, 05 फरवरी 2006
लै. कर्नल देवाशीष रे (एमआर-5224के), 02 जून 2005	प्रभात रंजन बरूआ (एमआर-07617वाई), एएमसी, 16 अप्रैल 2006
लै. कर्नल के के सेठी (एमआर-5223एफ), 02 जून 2005	निधि कालडा (एमआर-07698के), एएमसी, 04 मार्च 2007
लै. कर्नल महेश नादकर (एमआर-5339एक्स), 06 जून 2005	प्रशान्त शर्मा (एमआर-07715वाई), एएमसी, 04 मार्च 2007
लै. कर्नल टी एस अहलुवालिया (एमआर-4954एच), 21 जून 2005	सिबेन्द्र सेधित (एमआर-07800एफ), एएमसी, 02 अगस्त 2007
लै. कर्नल विक्रम सिंह (एमआर-4955एल), 21 जून 2005	मुनीष सूद (एमआर-07802एम), एएमसी, 02 अगस्त 2007
लै. कर्नल रमण्ड राज (एमआर-4956एन), 21 जून 2005	अभीजीत सिंह (एमआर-07803एम), एएमसी, 02 अगस्त 2007
लै. कर्नल एच एस मिन्हास (एमआर-5097ए), 21 जून 2005	जी शंकर (एमआर-07805ए), एएमसी, 02 अगस्त 2007
लै. कर्नल आर के राठी (एमआर-5173एफ), 21 जून 2005	इन्द्रजीत सिकन्दर (एमआर-07807एल), एएमसी, 02 अगस्त 2007
लै. कर्नल एच सी पाठक (एमआर-4803के), 03 अगस्त 2005	अमित कुमार (एमआर-07808एन), एएमसी, 02 अगस्त 2007
लै. कर्नल हर्ष निधि (एमआर-5853एफ), 19 अगस्त 2005	कुमार कुनाल (एमआर-07809डब्ल्यू), एएमसी, 02 अगस्त 2007
लै. कर्नल हेमराज (एमआर-5106डब्ल्यू), 25 अगस्त 2005	मलेला जयाशेखर (एमआर-07811एन), एएमसी, 02 अगस्त 2007
लै. कर्नल आर बासु देवन (एमआर-5854के), 26 अगस्त 2005	अभिषेक पाठक (एमआर-07724ए), एएमसी, 04 मार्च 2007
लै. कर्नल श्रीमती मुक्ति शर्मा (एमआर-5788एम), 27 अगस्त 2005	सौरभ भूयानी (एमआर-07748के), एएमसी, 04 मार्च 2007
लै. कर्नल हिमाद्री बल (एमआर-5109के), 17 सितम्बर 2005	जुली सचदेवा (एमआर-07711एच), एएमसी, 08 जून 2007
लै. कर्नल आर टी ट्रेपर (एमआर-5352एफ), 28 सितम्बर 2005	

राज शंखर (एमआर-07801के), एएमसी, 02 अगस्त 2007	शमन गिल (एमआर-07709एल), एएमसी, 04 मार्च 2007
जे खुराना (एमआर-07437डब्ल्यू), एएमसी, 15 फरवरी 2005	जफर हुसैन (एमआर-07733एफ), एएमसी, 04 मार्च 2007
अतुल अभिषेक झा (एमआर-07467एन), एएमसी, 13 जुलाई 2005	आदित्या अभिषेक झा (एमआर-07744एन), एएमसी, 04 मार्च 2007
वि. राजेन्द्र प्रसाद (एमआर-07575एक्स), एएमसी, 05 फरवरी 2006	नितिका सिंह (एमआर-07749एम), एएमसी, 04 मार्च 2007
गार्गी विश्वास (एमआर-07526पी), एएमसी, 05 फरवरी 2006	त्रिवेका धीमन (एमआर-07702एफ), एएमसी, 04 मार्च 2007
सैकन भट्टाचार्यजी (एमआर-07529एच), एएमसी, 05 फरवरी 2006	राहुल सिन्हा (एमआर-07705पी), एएमसी, 04 मार्च 2007
प्रकाश नारायण गुप्ता (एमआर-07533एल), एएमसी, 05 फरवरी 2006	प्रवीन कुमार (एमआर-07759डब्ल्यू), एएमसी, 04 मार्च 2007
पुन्याइल्होक बिसवाल (एमआर-07564एल), एएमसी, 05 फरवरी 2006	प्रणय प्रताप (एमआर-07762डब्ल्यू), एएमसी, 04 मार्च 2007
विवेक कुमार सिंह (एमआर-07567वाई), एएमसी, 05 फरवरी 2006	नचांकर अभिन सदानन्द (एमआर-08393डब्ल्यू), एएमसी, 04 अप्रैल 2007
* पंकज खन्ने (एमआर-07573एम), एएमसी, 05 फरवरी 2006	अलोक कुमार (एमआर-07701वाई), एएमसी, 04 मार्च 2007
रोहित वर्मा (एमआर-07574पी), एएमसी, 05 फरवरी 2006	दर्शन गुप्ता (एमआर-07708एच), एएमसी, 04 मार्च 2007
सौरभ घोष (एमआर-07576ए), एएमसी, 05 फरवरी 2006	स्नेहलीना (एमआर-07710ए), एएमसी, 04 मार्च 2007
प्रफुल्ल शर्मा (एमआर-07540एफ), एएमसी, 05 फरवरी 2006	शिवेन्द्र कुमार सिंहा (एमआर-07753पी), एएमसी, 04 मार्च 2007
प्रेमराजु अरपिथा (एमआर-07544एक्स), एएमसी, 05 फरवरी 2006	कविश कपूर (एमआर-08297एफ), एएमसी, 18 फरवरी 2007
संजय कुमार घर (एमआर-07547एल), एएमसी, 05 फरवरी 2006	ओमना साकी (एमआर-08293एल), एएमसी, 26 फरवरी 2007
अरुण सिंह यादव (एमआर-07556एम), एएमसी, 05 फरवरी 2006	आशीष बडोरा (एमआर-08330एन), एएमसी, 26 फरवरी 2007
इरसाद अहमद खान (एमआर-07553वाई), एएमसी, 05 फरवरी 2006	गोविन्द जी ठाकुर (एमआर-07689एन), एएमसी, 04 मार्च 2007
अलोक कुमार सिंह (एमआर-07556एम), एएमसी, 05 फरवरी 2006	शीतल रेना (एमआर-07700डब्ल्यू), एएमसी, 04 मार्च 2007
कमल दीप कौल (एमआर-07557पी), एएमसी, 05 फरवरी 2006	ललित मोहन गुप्ता (एमआर-07707ए), एएमसी, 04 मार्च 2007
इन्दरमनी फण्डे (एमआर-07560पी), एएमसी, 05 फरवरी 2006	अमित बहुराणा (एमआर-07713एन), एएमसी, 04 मार्च 2007
समरन एम सुकर (एमआर-07565एन), एएमसी, 05 फरवरी 2006	देवेन्द्र नीमा (एमआर-07721एम), एएमसी, 04 मार्च 2007
मनीषा अग्रवाल (एमआर-07541के), एएमसी, 05 फरवरी 2006	गौरव मित्तल (एमआर-07722पी), एएमसी, 04 मार्च 2007
आश्विन अरोड़ा (एमआर-07546एच), एएमसी, 05 फरवरी 2006	सी एच सिरोशा कोमला (एमआर-07724एच), एएमसी, 04 मार्च 2007
पीयूष कुमार चतुर्वेदी (एमआर-07634वाई), एएमसी, 16 जुलाई 2006	रतुनी पिश्रा (एमआर-07727एन), एएमसी, 04 मार्च 2007
सैयद मोह अदिल (एमआर-07641पी), एएमसी, 20 अगस्त 2006	रितु ग्रेवाल (एमआर-07730एन), एएमसी, 04 मार्च 2007
मुकुल वाजपेयी (एमआर-07635एफ), एएमसी, 28 सितम्बर 2006	वीदान देव सिंह जामवाल (एमआर-07731डब्ल्यू), एएमसी, 04 मार्च 2007
वाई उदय (एमआर-07697एफ), एएमसी, 04 मार्च 2007	अनवेश राठीर (एमआर-07734के), एएमसी, 04 मार्च 2007
राजेश साहु (एमआर-07703के), एएमसी, 04 मार्च 2007	अल्पना गुप्ता (एमआर-07735एम), एएमसी, 04 मार्च 2007
विद्या भुवण पाण्डेय (एमआर-07716एफ), एएमसी, 04 मार्च 2007	अरुण कुमार यादव (एमआर-07737एक्स), एएमसी, 04 मार्च 2007
देवीका गुप्ता (एमआर-07714डब्ल्यू), एएमसी, 04 मार्च 2007	

वित्तिन गोयल (एमआर-07738ए), एएमसी, 04 मार्च 2007	परिशीत सिंह चौहान (एमआर-07646एन), एएमसी, 16 जुलाई 2006
प्रेम शंकर कुमार (एमआर-07739एच), एएमसी, 04 मार्च 2007	श्री हरि पौ (एमआर-07652एफ), एएमसी, 16 जुलाई 2006
नुषेन्द्र सिंह राणा (एमआर-07747एफ), एएमसी, 04 मार्च 2007	रनवीर सिंह (एमआर-07616डब्ल्यू), एएमसी, 07 अप्रैल 2006
चेतना अग्रवाल (एमआर-07750एफ), एएमसी, 04 मार्च 2007	राजेश चूध (एमआर-07528ए), एएमसी, 05 फरवरी 2006
ओमेश नाथ (एमआर-07752एम), एएमसी, 04 मार्च 2007	जय इन्द्र सिंह (एमआर-07549डब्ल्यू), एएमसी, 05 फरवरी 2006
शैलेन्द्र सिंह (एमआर-07754एक्स), एएमसी, 04 मार्च 2007	सरला एम (एमआर-07550एल), एएमसी, 05 फरवरी 2006
निशान्त पाठक (एमआर-07755ए), एएमसी, 04 मार्च 2007	प्रभाकर मिश्रा (एमआर-07551एन), एएमसी, 05 फरवरी 2006
कोठुरी चन्द्रिका प्रसाद (एमआर-07756एच), एएमसी, 04 मार्च 2007	जसदीप सिंह (एमआर-07555के), एएमसी, 05 फरवरी 2006
आशु चन्दा (एमआर-07757एल), एएमसी, 04 मार्च 2007	हरमोत सिंह (एमआर-07418एल), एएमसी, 15 फरवरी 2005
तनुश्री बोस (एमआर-07758एन), एएमसी, 04 मार्च 2007	सिमिल वर्मा (एमआर-07402ए), एएमसी, 15 फरवरी 2005
आदित्य जोशी (एमआर-07566डब्ल्यू), एएमसी, 05 फरवरी 2006	पंकज यादव (एमआर-07359के), एएमसी, 27 जून 2004
प्रवीन कुमार दहिवा (एमआर-07569के), एएमसी, 05 फरवरी 2006	स्मिता मौदगिल (एमआर-07463एक्स), एएमसी, 13 जुलाई 2005
अमित शर्मा (एमआर-08239एक्स), एएमसी, 25 फरवरी 2006	विकास गुप्ता (एमआर-07471डब्ल्यू), एएमसी, 13 जुलाई 2005
सुनेन्द्र कुमार पूनीया (एमआर-07644एच), एएमसी, 16 जुलाई 2006	सोनाली विनय कुमार (एमआर-07472वाई), एएमसी, 13 जुलाई 2005
गुरुराजा आर (एमआर-08392एन), एएमसी, 19 दिसम्बर 2006	विक्रम उप्पल (एमआर-07486वाई), एएमसी, 13 जुलाई 2005
शमेश कुमार सिंह (एमआर-07642एक्स), एएमसी, 16 जुलाई 2006	पी वी भरत (एमआर-07487एफ), एएमसी, 13 जुलाई 2005
रजनीश झा (एमआर-07656एल), एएमसी, 16 जुलाई 2006	धीरज नोहवार (एमआर-07473एफ), एएमसी, 13 जुलाई 2005
कुनाल सरीन (एमआर-08246एन), एएमसी, 19 दिसम्बर 2006	प्रदीप वेहल (एमआर-07475एम), एएमसी, 13 जुलाई 2005
भरत कुमार एन (एमआर-08245एल), एएमसी, 19 दिसम्बर 2006	एस पी एस शेरगिल (एमआर-07479एच), एएमसी, 13 जुलाई 2005
नितेश अग्रवाल (एमआर-08296वाई), एएमसी, 19 दिसम्बर 2006	सौरभ सिंह (एमआर-07484एन), एएमसी, 13 जुलाई 2005
रजनी रायल (एमआर-08395एफ), एएमसी, 19 दिसम्बर 2006	राधा कृष्णा नयानी (एमआर-07485डब्ल्यू), एएमसी, 13 जुलाई 2005
प्रोजेक्ती विजय भुमी (एमआर-08238पी), एएमसी, 20 फरवरी 2006	मनप्रीत सिंह (एमआर-07483एल), एएमसी, 19 जुलाई 2005
एवेंश दुबे (एमआर-07636के), एएमसी, 16 जुलाई 2006	अतुल अभिषेक झा (एमआर-07467एन), एएमसी, 13 जुलाई 2005
सुधीर कुमार सिंह (एमआर-07650डब्ल्यू), एएमसी, 16 जुलाई 2006	राजेन्द्र प्रसाद (एमआर-07575एक्स), एएमसी, 05 फरवरी 2006
किरण कुमार कोम्पेला (एमआर-07645एल), एएमसी, 16 जुलाई 2006	प्रोमा सिन्हा (एमआर-07530एक्स), एएमसी, 05 फरवरी 2006
मीनाक्षी राय (एमआर-07651वाई), एएमसी, 16 जुलाई 2006	रिशोकेश दीपक साने (एमआर-07531ए), एएमसी, 05 फरवरी 2006
एन सुब्रमन्यम (एमआर-07654एम), एएमसी, 16 जुलाई 2006	देवराज सेन (एमआर-07532एच), एएमसी, 05 फरवरी 2006
पुष्पेन्द्र सिंह कौशल (एमआर-07632एन), एएमसी, 16 जुलाई 2006	प्रेरणा शंकर (एमआर-07534एन), एएमसी, 05 फरवरी 2006
एल वी विशेश्वर राव (एमआर-07640एम), एएमसी, 16 जुलाई 2006	विकास पवनिया (एमआर-07535डब्ल्यू), एएमसी, 05 फरवरी 2006
गुड्डवीर सिंह (एमआर-07643ए), एएमसी, 16 जुलाई 2006	सैयद आसिफ हाजमी (एमआर-07537एफ), एएमसी, 05 फरवरी 2006
	रविन्द्र जीवन कामथ (एमआर-07538के), एएमसी, 05 फरवरी 2006
	कृतिविकेश पाण्डे (एमआर-07539एम), एएमसी, 05 फरवरी 2006
	सुधीरजित भट्टाचार्य (एमआर-07461एम), एएमसी, 19 फरवरी 2005
	आर महेश रेड्डी (एमआर-07630एच), एएमसी, 16 जुलाई 2006

प्रशान्त कुमार (एमआर-07631एल), एएमसी, 16 जुलाई 2006
 शशीभूषण साहू (एमआर-07633डब्ल्यू), एएमसी, 16 जुलाई 2006
 जी मोहन रायच (एमआर-07647डब्ल्यू), एएमसी, 16 जुलाई 2006
 रामन कोटवाल (एमआर-07653के), एएमसी, 16 जुलाई 2006

कप्तान के पद पर

योगेन्द्र विधानी (एमएस-14465एल) (एमआर-08505एल), एएमसी, 29 जनवरी 2003, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 29 जुलाई 2002 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति योग्यता के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 14 जुलाई 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह (एमएस-14502एन) (एमआर-08526एफ), एएमसी, 28 फरवरी 2002, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 28 अगस्त 2001 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति योग्यता के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

मो रशीद (एमएस-14583वाई) (एमआर-08596ए), एएमसी, 15 मार्च 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 मई 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

अदितो शर्मा (एमआर-08343एल), एएमसी, 20 फरवरी 2007
 मुकेश टिल्लन (एमआर-08349एम), एएमसी, 20 फरवरी 2007
 रजनी कान्त तिमलसुगूर (एमआर-08380वाई), एएमसी, 20 फरवरी 2007

डो बी भार्गव (एमआर-08174पी), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

मयंक मिश्रा (एमआर-08371एक्स), एएमसी, 20 फरवरी 2007

जी रविन्द्रनाथ

ब्रिगे

उप डीजीएफएमएस (पर्स)

सेना शाखा

सं. 212, दिनांक 08 अप्रैल 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

नाम, आई सी नं. और आर्म

विवेक सिंह (आईसी-53322), ईएमई

--10 दिसम्बर 2004

अशीष टण्डन (आईसी-59697), इंजी., 10 जून 2007

हिमांशु कुमार त्रिपाठी (आईसी-60164), इन्फैन्ट्री, 09 दिसम्बर 2006

सुभाशीष चक्रवर्ती (आईसी-60291), इन्फैन्ट्री, 09 दिसम्बर 2006

सतीष नागर (आईसी-60563), एएससी, 09 जून 2007

अक्षय भाऊराव डैनी (आईसी-60564), इन्फैन्ट्री, 09 जून 2007

कुमार नरेश (आईसी-60591), आर्टी, 09 जून 2007

पार्थी राज देव (आईसी-60763), आर्टी, 09 जून 2007

विनय कुमार (आईसी-61004), एएससी, 09 जून 2007

अतुल कटोच (आईसी-61016), सिग्नल्स, 09 जून 2007

राहुल सिंह (आईसी-61092), इन्फैन्ट्री, 09 जून 2007

टी प्रसांत (आईसी-62935), ईएमई, 10 दिसम्बर 2006

करजजी जहीर अब्बास शम्मीर अहमद (आईसी-63336), इंजी., 14 जून 2007

मैथ्यू थॉमस (आईसी-63366), ईएमई, 14 जून 2007

संजय कुमार (आईसी-64833), इंजी., 04 मई 2007

अलोक शुक्ला (आईसी-64840), आर्टी, 04 नवम्बर 2006

मेनन सुकेश सुकुमारन (आईसी-65153), इन्फैन्ट्री, 03 नवम्बर 2007

लोकेश कुमार वर्मा (आईसी-65163), इंजी., 03 नवम्बर 2007

राजेश पाराशर (आईसी-65171), ईएमई, 03 नवम्बर 2007

शरवीर देवरा (आईसी-65172), एएससी, 03 नवम्बर 2007

अरवि दुबे (आईसी-65205), इन्फैन्ट्री, 03 नवम्बर 2007

हरीओम सिंह भण्डारी (आईसी-65251), ईएमई, 03 नवम्बर 2007

नाम एएससी नं. और आर्म

सतपाल सिंह (एससी-00407), एएससी

--08 दिसम्बर 2007

जसवंत सिंह

संयुक्त निदेशक

एमएस-8सी

थल सेना विभाग

सं. 213, दिनांक 09 अप्रैल 2008--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ करते हैं:-

नियमित सेना

सेना वायु रक्षा कोर

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (जीडी) के पद में

सूबेदार मदनपाल सिंह (जैसी-297131डब्ल्यू), 19 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007 *

सूबेदार प्रकाश चंद (जैसी-296526एल), 05 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *

सूबेदार बोंदिया युगराज हुनीलाल (जैसी-296594एक्स), 18 जनवरी 2008/13 नवम्बर 2007 *

सूबेदार उत्तम सिंह (जैसी-297025एक्स), 21 जनवरी 2008/13 नवम्बर 2007 *

सूबेदार सुकुमारन नायर आर (जैसी-296712एफ), 01 फरवरी 2008

सब्सटेंटिव सूबेदार (जीडी) के पद में

नायब सूबेदार एम वेंकटेशन (जैसी-298898पी), 20 सितम्बर 2007/01 जून 2007 *

नायब सूबेदार जीवन चन्द्र (जैसी-299378डब्ल्यू), 05 सितम्बर 2007/24 जुलाई 2007 *

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जैसी-299391ए), 03 नवम्बर 2007/30 जुलाई 2007 *

नायब सूबेदार श्री नाथ (जैसी-299321एफ), 17 सितम्बर 2007/31 जुलाई 2007 *

नायब सूबेदार महेश चन्द्र (जैसी-298526के), 22 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007 *

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जैसी-298771एम), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार लाल सिंह (जैसी-299010एन), 03 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007 *

नायब सूबेदार रामधन यादव (जैसी-299298वाई), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार राज कुमार (जैसी-299299एफ), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार दशरथ सिंह यादवा (जैसी-299353के), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार बरुन कुमार झा (जैसी-298820के), 15 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *

नायब सूबेदार कंवरपाल सिंह यादव (जैसी-299124वाई), 13 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *

नायब सूबेदार ज्ञान राय (जैसी-299007एन), 28 नवम्बर 2007/03 नवम्बर 2007 *

नायब सूबेदार विजय कुमार (जैसी-299318एफ), 01 जनवरी 2008/20 नवम्बर 2007 *

नायब सूबेदार राज सिंह (जैसी-298414के), 01 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

नायब सूबेदार जगत नारायण (जैसी-298452ए), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार एस सेकर (जैसी-299028के), 07 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

नायब सूबेदार अस्वस्थामा (जैसी-299059के), 20 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जैसी-299035ए), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार साहब सिंह (जैसी-299074वाई), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार जय सिंह (जैसी-299061एफ), 05 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007 *

नायब सूबेदार विजयन पी के (जैसी-299123डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार सुभाष चंद (जैसी-298184एफ), 11 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार जगत सिंह (जैसी-298398एक्स), 11 जनवरी 2008

नायब सूबेदार मेवा राम (जैसी-298620एन), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार एम धिरुनाथक्कारासु (जैसी-298812एल), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जैसी-298957एन), 10 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार ओम प्रकाश शुक्ला (जैसी-299119एन), 07 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार धर्म चंद (जैसी-299208एम), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार सूबे सिंह (जैसी-299202एल), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार कल्याण सिंह (जैसी-299219वाई), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जैसी-299315एन), 04 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार कृष्ण नाथ सिंह (जैसी-299147ए), 10 जनवरी 2008/05 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार लाल राम यादवा (जैसी-299046एम), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार प्रभु एस (जैसी-298325एल), 01 फरवरी 2008

*पदोन्नति के लिए स्पष्टता

पी रामा शास्त्री
अवर सचिव

(वित्त प्रभाग)

सं. 214, दिनांक 09 अप्रैल 2008.—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में श्रीमती नील कमल नारंग, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) भार.से. से, को उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 मार्च 2008 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करती हैं।

राम चरण मीणा
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

सेना शाखा

सं. 215, दिनांक 10 अप्रैल 2008.—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा उनको अधिकारियों के नियमित आरक्षी कोटे (क्लास X) अधिन एस् ए आई 10/5/63 यथा संशोधित में स्थानान्तरित करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लै. कर्नल राजा रमन मुंशी (आईसी-51409), इंजी., 09 अगस्त 2006
लै. कर्नल मोहन चन्द्र मिश्रा (आईसी-41855), ए.ओ.सी., 24 अगस्त 2005 (अ.प्र.)

लै. कर्नल संजय शर्मा (आईसी-42591), इन्फैन्ट्री, 26 जुलाई 2006 (अ.प्र.)

लै. कर्नल गौतम कुमार मुखर्जी (आईसी-44446), इंजी., 05 फरवरी 2006 (अ.प्र.)

लै. कर्नल आर आर नायर (आईसी-43077), इंजी., 26 सितम्बर 2005 (पू.व.)

लै. कर्नल डेविड अरुण कुमार जोसुआ (आईसी-45229), इंजी., 31 अगस्त 2005 (अ.प्र.)

लै. कर्नल वुरली श्रीकान्त राव (आईसी-44000), इंजी., 30 नवम्बर 2005 (अ.प्र.)

लै. कर्नल अशोक कुमार पाण्डे (आईसी-42723), इंजी., 09 जनवरी 2006 (अ.प्र.)

लै. कर्नल चंद्र पाल सिंह (आईसी-43632), इंजी., 15 फरवरी 2006 (अ.प्र.)

लै. कर्नल राजीव शर्मा (आईसी-42503), सिग्नल्स, 17 जुलाई 2005 (पू.व.)

लै. कर्नल सचिन वर्मन (आईसी-48678), सिग्नल्स, 24 नवम्बर 2005 (अ.प्र.)

लै. कर्नल टी एस एस प्रसाद (आईसी-43101), सिग्नल्स, 12 दिसम्बर 2005 (अ.प्र.)

लै. कर्नल अशोकन जी (आईसी-49851), इंजी., 10 सितम्बर 2005 (अ.प्र.)

लै. कर्नल शर्मा विरेन्द्र कुमार (आईसी-41142), सिग्नल्स, 07 मार्च 2005 (अ.प्र.)

लै. कर्नल तोमर अजय (आईसी-41654), सिग्नल्स, 17 जनवरी 2006 (अ.प्र.)

मेजर अवल सेठी (आईसी-52542), एसी, 01 अप्रैल 2005

मेजर अजय कुमार (आईसी-54828), इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2005

लै. कर्नल विनोद कुमार झा (आईसी-41531), इन्फैन्ट्री, 03 सितम्बर 2005 (अ.प्र.)

लै. कर्नल गौरव तनेजा (आईसी-49175), इन्फैन्ट्री, 02 सितम्बर 2005 (पू.व.)

लै. कर्नल दीपक श्रीकास्तावा (आईसी-41295), इन्फैन्ट्री, 08 नवम्बर 2005 (अ.प्र.)

लै. कर्नल आर के सिंह (आईसी-44029), ईएमई, 30 नवम्बर 2005 (अ.प्र.)

लै. कर्नल नर सिंह (आईसी-39633), एसी, 31 जुलाई 2005 (अ.प्र.)

मेजर व. अ. के ग्लेडस्टोन (आईसी-54802), एसी, 25 फरवरी 2006 (अ.प्र.)

लै. कर्नल राजामुल होष्ट (आईसी-40589), एसी, 25 फरवरी 2006 (अ.प्र.)

लै. कर्नल डी एन शर्मा (आईसी-47550), इंजी., 30 जून 2007 (अ.प्र.)

लै. कर्नल विनोद कुमार कोटनाला (आईसी-43999), सिग्नल्स, 15 जून 2007 (अ.प्र.)

एस के चक्रवर्ती
संयुक्त निदेशक एमएस/पीआर

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 3rd May 2008

(ARMY BRANCH)

No. 207, dated 4th April 2008.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY**PERMANENT COMMISSION**

(To be Lts w.e.f. 10th June 2006)

Abhishek Kumar (IC-67975N) INF seniority next below Neeraj Mehta (IC-67974L), INF and Anand Gaurav Misra (IC-68064K) Moch INF seniority next below Ashutosh Nautiyal (IC-68063F), INF whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 12 May 2007.

NILESH CHOWDHARYMajor
AMS 8B**INTEGRATED HEADQUARTERS (NAVY)**

(Dte of Admin/Civ Section)

No. 208, dated 4th April 2008.—The President is pleased to appoint the following Assistants of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period mentioned against their names, or till regular incumbent becomes available or till such time the officer retires, whichever is earlier :—

Smt. Veena Shabbi 01-02-2008 to 23-02-2008

Smt. M Pahuja 04 02-2008 to 23-02-2008

Smt. Meena Chand 01-02-2008 to 23-02-2008

This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SHANKAR SINGH

Dy. Chief Administrative Officer (A)

AIR BRANCH

No. 209, dated 7th April 2008.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers who were granted Permanent Commission (on probation wef 28 Dec 2006). They are granted ante date wef the dates stated against their names :—

AERONAUTICAL ENGINEERING BRANCH

Fg Offr M V Kambie (28952), AE(L), Anil Kumar Panigrahi (28929), AE(M), G K Thiyaasundaram (28992), AE(L), H P Singh Tomar (28961), AE(L), Vivek Maheshwar

(28941), AE(L), Ajay Shiva Kumar (28934), AE(M), Diwakar Purohit (29330), AE(L), Arun Upadhyay (28936), AE(L), S S Swamy (29331), AE(L), Praveen Kumar (28931), AE(M), T Vamsbidhar (28950), AE(L), P K Balan (29332), AE(L), S A Jayaram (28938), AE(L), Eak Jayascelan (28937), AE(L), Sandeep Singh (28951), AE(L), Bijoy Sharma (28933), AE(M), Dinesh Singh (29328), AE(M), C Ramesh (29134), AE(L), Babu Kartikeyan (29327), AE(M), S S Pillai (28939), AE(L), S K Pathak (28964), AE(L), R N Yadav (28968), AE(L), N P K Singh (28965), AE(L), Abhinav Saxena (28930), AE(M), Nahakpam S Sing (28932), AE(M), R Majumdar (28969), AE(L), S Bhardwaj (28953), AE(L), K K Mishra (29329), AE(M), Vaibhav Lakhanpat (28935), AE(L), Chirag Arora (28943), AE(L), Rahul Singh (28955), AE(L), Vivek Mishra (28959), AE(L), K J Singh (28970), AE(L), R K Gupta (28963), AE(L), Khurshid Alam (28967), AE(L), V K Chhimwel (28954), AE(L), V C Bhatt (28942), AE(L), Anirban Sharma (28971), AE(L), Varun Sharm (28957), AE(L), M Ozukum (28972), AE(L), S G Pandey (28949), AE(L), Arvind Kumar (28958), AE(L), Navin Kumar (28940), AE(L), Abhishek Saxena (28948), AE(L), A K Agnihotri (28956), AE(L), Rajat Sharma (28945), AE(L), Santosh Saini (28960), AE(L), Alok Bhargava (28944), AE(L), A Gautam (28946), AE(L), Surinder Grover (28962), AE(L), wef 28 Dec 2004.

N. VIJAY KUMARWg Cdr
JDPO-3(D)**MILITARY SECRETARY'S BRANCH**

No. 210, dated 7th April 2008.—The President is pleased to make Substantive promotions of Lt General to the following officers :—

REGULAR ARMY**PERMANENT COMMISSION**

To be Substantive Lt General

Rank, Name, IC No., Arm and Date of Subs Rank

Maj Gen Bartwal D S (IC-24604), JAT, 01 Apr 2007

Maj Gen K P D Samanta, AVSM, VSM (IC-23375), Arty, 03 Sep 2007 with seniority from 18-04-07 without effect on pay and pension.

Maj Gen N Mohanty, AVSM, VSM (V-00321), RVC, 29 Jun 2007

Maj Gen A K Lamba (IC-23801), Arty, 14 Aug 2007

To be Substantive Maj Gen

Brig Mirji K N (IC-25878), Arty 02 Jan 2007 with seniority from 01-11-06 without effect on pay and pension.

Brig M K Gupta (IC-31274), Sigs 01 Sep 2007 with seniority from 01-03-07 without effect on pay and pension.

Brig N B Singh, VSM (IC-27942), EME 28 Aug 2007 with seniority from 01-05-07 without effect on pay and pension.

Brig A K Manan (IC-27943), Engrs 02 Aug 2007 with seniority from 01-05-07 without effect on pay and pension.

Brig A S Chand (IC-27978), Engr 01 Jun 2007

Brig H J Singh, SC, VSM (IC-30216), ASC 01 Nov 2007 with seniority from 03-06-07 without effect on pay and pension.

Brig Rahul Kumar (IC-31562), Engrs 01 Dec 2007 with seniority from 03-06-07 without effect on pay and pension.

Brig K Gajaria (IC-31593), Engrs 01 Dec 2007 with seniority from 03-06-07 without effect on pay and pension.

Brig Pawar S S (IC-25903), JAT 01 Dec 2007 with seniority from 01-06-06 without effect on pay and pension.

Brig G S Narula (IC-27106), AOC 13 Dec 2007 with seniority from 01-07-06 without effect on pay and pension.

Brig N V Pande (IC-30956), Sigs 01 Jan 2008 with seniority from 01-01-07 without effect on pay and pension.

Brig N Mahanty (V-321), RVC 01 Mar 2006 with seniority from 01-10-05 without effect on pay and pension.

To be Substantive Brig

Col T S Thind (IC-35440), Sigs 01 Jan 2008 with seniority from 01-06-06 without effect on pay and pension

Col Sukhinderjeet Singh (IC-34110), Arty 01 Jul 2007 with seniority from 01-09-06 without effect on pay and pension.

N. K. PHUKAN
AMS/MS(X)

ARMY BRANCH

No. 213, dated 8th April 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Col (& Equivalent) to be Brig (& Equivalent)

N K Sundaray (MR-04218K), 23 May 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-03-07

B P Singh (MR-03470W), 05 May 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-03-07

S S Anand (MR-03543X), 07 Jun 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-04-07

K K Sharma (MR-04128H), 08 May 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-05-07

Vinay Rai (MR-04043M), 07 Jun 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-05-07

Suveer Sharma (MR-04124M), 05 May 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-05-07

S S Panwar (MR-04125P), 16 Jul 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-06-07

A K Sharma (MR-04221K), 17 Jul 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-06-07

Shalesh Rohatgi (MR-04361W), 30 Jul 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-06-07

A S Narula (MR-03738H), 01 Aug 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-06-07

K R Salgotra (MR-04126X), 04 Aug 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-06-07

J Jena (MR-03736X), 01 Aug 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-07-07

Y S Sarma (MR-04410N), 01 Aug 2007

S Kumaravelu (MR-03902A), 01 Aug 2007

B K Chopra (MR-04133N), 30 Aug 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-08-07

Chander Mohan (MR-04223P), 27 Aug 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-08-07

G S Chopra (MR-04310H), 27 Aug 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-08-07

V K Rattan (MR-04411W), 27 Aug 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01-08-07

Prakash Singh (MR-03679F), 01 Sep 2007

GP Capt (& Equivalent) to be Air CMDE (& Equivalent)

B K Rao (MR-03580L) (AF-14450), 01 Jan 2007

Lt Col to be Col (Selection) (& Equivalent)

B Chaudhary (MR-05497M), 10 Jun 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 28-01-06

Lt Col (& Equiv) to Colonel (& Equiv) (Time Scale)

Surg CDR J C Mohanty (MR-03500H), 16 Dec 2004

Surg CDR K K Raheja (MR-04534H), 16 Dec 2004

Surg CDR K G Paul (MR-03964A), 16 Dec 2004

Surg CDR H Jagannayakulu (MR-04047H), 16 Dec 2004

Surg CDR P K Singh (MR-04163L), 16 Dec 2004

Lt Col (Mrs) Rita Dadwal (MR-05503P), 12 May 2005

Lt Col V K Gupta (MR-05365Y), 14 May 2005

Lt Col S P V Turlapati (MR-04345Y), 15 May 2005

Lt Col R C Sharma (MR-04670Y), 15 May 2005	Nidhi Kalra (MR-07698K), AMC, 04 Mar 2007
Lt Col R K Mukherjee (MR-04951P), 22 May 2005	Prashant Sharma (MR-07715Y), AMC, 04 Mar 2007
Lt Col N Srinath (MR-05096X), 26 May 2005	Shivendra Shobhit (MR-07800F), AMC, 02 Aug 2007
Lt Col M K Khattar (MR-05852Y), 27 May 2005	Munish Sood (MR-07802M), AMC, 02 Aug 2007
Lt Col R S Vasantikumar (MR-05437X), 01 Jun 2005	Abhijit Singh (MR-07803M), AMC, 02 Aug 2007
Lt Col V P Singh (MR-04952X), 02 Jun 2005	G Shankar (MR-07805A), AMC, 02 Aug 2007
Lt Col Debashish Ray (MR-05224K), 02 Jun 2005	Indranill Sikdar (MR-07807L), AMC, 02 Aug 2007
Lt Col K K Sethi (MR-05223F), 02 Jun 2005	Amit Kumar (MR-07808N), AMC, 02 Aug 2007
Lt Col Mahesh Nadkar (MR-05339X), 06 Jun 2005	Kumar Kunal (MR-07809W), AMC, 02 Aug 2007
Lt Col T S Ahluwalia (MR-04954H), 21 Jun 2005	Mallela Jaya Sekhar (MR-07810L), AMC, 02 Aug 2007
Lt Col Vikram Singh (MR-04955L), 21 Jun 2005	Abhishek Pathak (MR-07724A), AMC, 04 Mar 2007
Lt Col Raymond Raj (MR-04956N), 21 Jun 2005	Sourabh Bhutani (MR-07748K), AMC, 04 Mar 2007
Lt Col H S Minhas (MR-05097A), 21 Jun 2005	Julie Sachdeva (MR-07711H), AMC, 08 Jun 2007
Lt Col R K Rathi (MR-05173F), 21 Jun 2005	Raj Shekhar (MR-07801K), AMC, 02 Aug 2007
Lt Col H C Pathak (MR-04803K), 03 Aug 2005	J Khurana (MR-07437W), AMC, 15 Feb 2005
Lt Col Harsh Nidhi (MR-05853F), 19 Aug 2005	Atul Abhishek Jha (MR-07467N), AMC, 13 Jul 2005
Lt Col Hemraj (MR-05106W), 25 Aug 2005	V Rajendra Prasad (MR-07575X), AMC, 05 Feb 2006
Lt Col R Vasudevan (MR-05854K), 26 Aug 2005	Gargi Biswas (MR-07526P), AMC, 05 Feb 2006
Lt Col (Mrs.) Mukti Sharma (MR-05788M), 27 Aug 2005	Saikat Bhattacharjee (MR-07529H), AMC, 05 Feb 2006
Lt Col Himadri Bal (MR-05109K), 17 Sep 2005	Prakash Narayan Gupta (MR-07533L), AMC, 05 Feb 2006
Lt Col R T Drapper (MR-05352F), 28 Sep 2005	Punya Shlok Biswal (MR-07564L), AMC, 05 Feb 2006
Lt Col K K Aneja (MR-05229H), 29 Sep 2005	Vivek Kumar Singh (MR-07567Y), AMC, 05 Feb 2006
Lt Col Mihir Niyogi (MR-05232H), 30 Sep 2005	Pankaj Khatri (MR-07573M), AMC, 05 Feb 2006
Lt Col T K Saha (MR-05598A), 01 Oct 2005	Rohit Verma (MR-07574P), AMC, 05 Feb 2006
Lt Col D K Jain (MR-05367K), 19 Oct 2005	Saurabh Ghosh (MR-07576A), AMC, 05 Feb 2006
Lt Col S S Vaishampayan (MR-05474L), 19 Oct 2005	Prafulla Sharma (MR-07540F), AMC, 05 Feb 2006
Lt Col V K Sinha, VSM (MR-04598N), 21 Oct 2005	Pemmaraju Arpitha (MR-07544X), AMC, 05 Feb 2006
Lt Col Vijay Singh (MR-05611Y), 01 Nov 2005	Sanjay Kumar Dhar (MR-07547L), AMC, 05 Feb 2006
Lt Col P S Bhatia (MR-05100P), 05 Nov 2005	Arun Singh Yadav (MR-07552W), AMC, 05 Feb 2006
Capt to be Major	Irshad Ahmed Khan (MR-07553Y), AMC, 05 Feb 2006
Mohd Rasheed (MS-14583Y) (MR-08596A), AMC, 15 Mar 2007	Alok Kumar Singh (MR-07556M), AMC, 05 Feb 2006
Dharmendra Prasad Singh (MS-14502N) (MR-08526F), AMC, 28 Aug 2005	Kamal Deep Kaul (MR-07557P), AMC, 05 Feb 2006
Yogendra Vidhani (MS-14465L) (MR-08505L), AMC, 29 Jul 2006	Indramani Pandey (MR-07560P), AMC, 05 Feb 2006
Vaka Raj Sekar Reddy (MR-07573F), AMC, 05 Feb 2006	Samrat M Sunkar (MR-07565N), AMC, 05 Feb 2006
Prabhat Ranjan Barua (MR-07617Y), AMC, 16 Apr 2006	Manisha Agarwal (MR-07541K), AMC, 05 Feb 2006
	Ashwin Arota (MR-07546H), AMC, 05 Feb 2006
	Piyush Kumar Chaturvedi (MR-07634Y), AMC, 16 Jul 2006

- Syed Md Adil (MR-07641P), AMC, 20 Aug 2006
Mukul Bajpai (MR-07635F), AMC, 28 Sep 2006
Y Uday (MR-07697F), AMC, 04 Mar 2007
Rajesh Sahu (MR-07703K), AMC, 04 Mar 2007
Vidya Bhushan Pandey (MR-07716F), AMC, 04 Mar 2007
Devika Gupta (MR-07714W), AMC, 04 Mar 2007
Shaman Gill (MR-07709L), AMC, 04 Mar 2007
Jafar Husain (MR-07733F), AMC, 04 Mar 2007
Aditya Abhishek Jha (MR-07744N), AMC, 04 Mar 2007
Nitika Singh (MR-07749M), AMC, 04 Mar 2007
Priyank Dhiman (MR-07702F), AMC, 04 Mar 2007
Rahul Sinha (MR-07705P), AMC, 04 Mar 2007
Praveen Kumar (MR-07759W), AMC, 04 Mar 2007
Pranay Pratap (MR-07762W), AMC, 04 Mar 2007
Nachankar Amjit Sadanand (MR-08393W), AMC, 04 Apr 2007
Alok Kumar (MR-07701Y), AMC, 04 Mar 2007
Darpan Gupta (MR-07708H), AMC, 04 Mar 2007
Sweteena (MR-07710A), AMC, 04 Mar 2007
Shivendra Kumar Sinha (MR-07753P), AMC, 04 Mar 2007
Kavish Kapoor (MR-08297F), AMC, 18 Feb 2007
Omna Shaki (MR-08293L), AMC, 26 Feb 2007
Ashish Vadhera (MR-08330N), AMC, 26 Feb 2007
Gobind Ji Thakur (MR-07699M), AMC, 04 Mar 2007
Sheetal Raina (MR-07700W), AMC, 04 Mar 2007
Lalit Mohan Gupta (MR-07707A), AMC, 04 Mar 2007
Amit Bahuguna (MR-07713N), AMC, 04 Mar 2007
Devendra Nema (MR-07721M), AMC, 04 Mar 2007
Gaurav Mittal (MR-07722P), AMC, 04 Mar 2007
Ch Sirisha Komala (MR-07725H), AMC, 04 Mar 2007
Stuti Mishra (MR-07727N), AMC, 04 Mar 2007
Ritu Grewal (MR-07730N), AMC, 04 Mar 2007
Vishan Dev Singh Jamwal (MR-07731W), AMC, 04 Mar 2007
Anvish Rathore (MR-07734K), AMC, 04 Mar 2007
Alpana Gupta (MR-07735M), AMC, 04 Mar 2007
Arun Kumar Yadav (MR-07737X), AMC, 04 Mar 2007
Nitin Goel (MR-07738A), AMC, 04 Mar 2007
Prem Shankar Kumar (MR-07739H), AMC, 04 Mar 2007
Tushendra Singh Rana (MR-07747F), AMC, 04 Mar 2007
Chetna Agrawal (MR-07750F), AMC, 04 Mar 2007
Omesh Nath (MR-07752M), AMC, 04 Mar 2007
Shalendra Singh (MR-07754X), AMC, 04 Mar 2007
Nishant Pathak (MR-07755A), AMC, 04 Mar 2007
Kothuri Chandrika Prasad (MR-07756H), AMC, 04 Mar 2007
Ashu Chandra (MR-07757L), AMC, 04 Mar 2007
Tanushree Bose (MR-07758N), AMC, 04 Mar 2007
Aditya Joshi (MR-07566W), AMC, 05 Feb 2006
Pravin Kumar Dahiya (MR-07569K), AMC, 05 Feb 2006
Amit Sharma (MR-08239X), AMC, 25 Feb 2006
Surendra Kumar Punia (MR-07644H), AMC, 16 Jul 2006
Gururaja R (MR-08392N), AMC, 19 Dec 2006
Shamresh Kumar Singh (MR-07642X), AMC, 16 Jul 2006
Rajneesh Jha (MR-07656L), AMC, 16 Jul 2006
Kunal Sarin (MR-08246N), AMC, 19 Dec 2006
Bharath Kumar N (MR-08245L), AMC, 19 Dec 2006
Nitesh Agrawal (MR-08296Y), AMC, 19 Dec 2006
Rajni Nayal (MR-08395F), AMC, 19 Dec 2006
Pranjali Vijay Dhume (MR-08238P), AMC, 20 Feb 2006
Sarvesh Dubey (MR-07636K), AMC, 16 Jul 2006
Sudhir Kumar Singh (MR-07650W), AMC, 16 Jul 2006
Kiran Kumar Kompella (MR-07645L), AMC, 16 Jul 2006
Meenakshi Roy (MR-07651Y), AMC, 16 Jul 2006
N Subramanyam (MR-07654M), AMC, 16 Jul 2006
Pushpendra Singh Kaushal (MR-07632N), AMC, 16 Jul 2006
L V Visweswara Rao (MR-07640M), AMC, 16 Jul 2006
Yaduvir Singh (MR-07643A), AMC, 16 Jul 2006
Parikshit Singh Chauhan (MR-07646N), AMC, 16 Jul 2006
Sree Hari P (MR-07652F), AMC, 16 Jul 2006
Ranveer Singh (MR-07616W), AMC, 07 Apr 2006

Rajeev Chugh (MR-07528A), AMC, 05 Feb 2006

Jai Inder Singh (MR-07549W), AMC, 05 Feb 2006

Sarala M (MR-07550L), AMC, 05 Feb 2006

Prabha Sankar Mishra (MR-07551N), AMC, 05 Feb 2006

Jasdeep Singh (MR-07555K), AMC, 05 Feb 2006

Harmeet Singh (MR-07418L), AMC, 15 Feb 2005

Simple Verma (MR-07402A), AMC, 15 Feb 2005

Pankaj Yadav (MR-07359K), AMC, 27 Jun 2004

Smita Moudgil (MR-07463X), AMC, 13 Jul 2005

Vikas Gupta (MR-07471W), AMC, 13 Jul 2005

Sonali Vinay Kumar (MR-07472Y), AMC, 13 Jul 2005

Vikram Uppal (MR-07486Y), AMC, 13 Jul 2005

P V Bharat (MR-07487F), AMC, 13 Jul 2005

Deoraj Nauhar (MR-07473F), AMC, 13 Jul 2005

Pradeep Behal (MR-07475M), AMC, 13 Jul 2005

S P S Shergill (MR-07479H), AMC, 13 Jul 2005

Sourabh Singh (MR-07484N), AMC, 13 Jul 2005

Radhakrishna Nayani (MR-07485W), AMC, 13 Jul 2005

Manpreet Singh (MR-07483L), AMC, 19 Jul 2005

Atul Abhishek Jha (MR-07467N), AMC, 13 Jul 2005

V Rajendra Prasad (MR-07575X), AMC, 05 Feb 2006

Preema Sinha (MR-07530X), AMC, 05 Feb 2006

Rishikesh Deepak Sane (MR-07531A), AMC, 05 Feb 2006

Debraj Sen (MR-07532H), AMC, 05 Feb 2006

Prerna Shankar (MR-07534N), AMC, 05 Feb 2006

Vikas Pathania (MR-07535W), AMC, 05 Feb 2006

Syed Asif Hashmi (MR-07537F), AMC, 05 Feb 2006

Ravindra Jeevan Kamath (MR-07538K), AMC, 05 Feb 2006

Hrshikesh Pande (MR-07539M), AMC, 05 Feb 2006

Subhrajit Bhattacharya (MR-07461M), AMC, 19 Feb 2005

R Mahesh Reddy (MR-07630H), AMC, 16 Jul 2006

Prashant Kumar (MR-07631L), AMC, 16 Jul 2006

Shashi Bhushan Sahu (MR-07633W), AMC, 16 Jul 2006

G Mahan Raghav (MR-07647W), AMC, 16 Jul 2006

Raman Kotnala (MR-07653K), AMC, 16 Jul 2006

To be Capt

Yogendra Vidhani (MS-14465L), (MR-08505L), AMC, 29 Jan 2003

with seniority for pay and promotion wef 29-07-2002 (this includes 06 months antedate for hospital appointment, which will count for pension not for gratuity).

(MoD notification published in the Gazette of India dated 14 Jul 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Dharmendra Prasad Singh (MS-14502N) (MR-08526F), AMC, 28 Feb 2002

with seniority for pay and promotion wef 28-08-2001 (this includes 06 months antedate for hospital appointment, which will count for pension not for gratuity).

(MoD notification published in the Gazette of India dated 08 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Mohd Rasheed (MS-14583Y) (MR-08596A), AMC, 15 Mar 2003

(MoD notification published in the Gazette of India dated 12 May 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Aditi Sharma (MR-08343L), 20 Feb 2007

Capt Mukesh Dhillon (MR-08349M), 20 Feb 2007

Capt Rajani Kanth Timmalsugur (MR-08380Y), 20 Feb 2007

Capt D V Bhargava (MR-08174P), 27 Dec 2005

Capt Mayank Mishra (MR-08371X), 20 Feb 2007

G. RAVINDRANATH

Brig

Dy DGAFMS (Pers)

(ARMY BRANCH)

No. 212, dated 8th April 2008.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

IC No.	Name and Arm
53322	Vivek Singh, EME, 10 Dec 2004
59697	Ashish Tondon, Engrs, 10 June 2007
60164	Himanshu Kumar Tripathi, Inf, 09 Dec 2006
60291	Subhashish Chakravarty, Inf, 09 Dec 2006
60563	Satish Nagar, ASC, 09 Jun 2007
60564	Akshay Bhaurao Daine, Inf, 09 Jun 2007

60591 Kumar Naresh, Arty, 09 Jun 2007
 60763 Partho Raj Deb, Arty, 09 Jun 2007
 61004 Vinay Kumar, ASC, 09 Jun 2007
 61016 Atul Katoch, Sigs, 09 Dec 2007
 61092 Rahul Singh, Inf, 09 Jun 2007
 62935 T Prashant, EME, 10 Dec 2006
 63336 Karajgi Zaheer Abbas Shabbir Ahmed, Engrs, 14 Jun 2007
 63366 Mathew Thomas, EME, 14 Jun 2007
 64833 Sanjay Kumar, Engrs, 04 May 2007
 64840 Alok Shukla, Arty, 04 Nov 2006
 65153 Menon Sukesh Sukumaran, Inf, 03 Nov 2007
 65163 Lokesh Kumar Verma, Engrs, 03 Nov 2007
 65171 Rajesh Parasher, EME, 03 Nov 2007
 65172 Shurveer Deora, ASC, 03 Nov 2007
 65205 Rishi Dubey, Inf, 03 Nov 2007
 65251 Hariom Singh Bhandari, EME, 03 Nov 2007
 00407 Satpal Singh, ASC, 08 Dec 2007

IASWANT SINGH

Jt Dir
MS-8C

(ARMY BRANCH)

No. 213, dated 9th April 2008.—The President is pleased to make the following appointments/promotions :—

REGULAR ARMY

CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Madanpal Singh (JC-297131W), 19 Oct 2007/
01 Oct 2007*

Sub Prakash Chand (JC-296526L), 05 Nov 2007/01 Nov 2007*

Sub Barendiya Yugraj Chhunnika (JC-296594X), 18 Jan 2008/13 Nov 2007*

Sub Uttam Singh (JC-297025X), 21 Jan 2008/13 Nov 2007*

Sub Sukumaran Nair R (JC-296712F), 01 Feb 2008

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub M Venketesan (JC-298898P), 20 Sep 2007/
01 Jun 2007*

Nb Sub Jiwan Chandra (JC-299378W), 05 Sep 2007/
24 Jul 2007*

Nb Sub Avtar Singh (JC-299391A), 03 Nov 2007/30 Jul 2007*

Nb Sub Shree Nath (JC-299321F), 17 Sep 2007/31 Jul 2007*

Nb Sub Mahesh Chandra (JC-298526K), 22 Oct 2007/
01 Oct 2007*

Nb Sub Sohan Singh (JC-298771M), 01 Oct 2007

Nb Sub Lal Singh (JC-299010N), 03 Oct 2007/01 Oct 2007*

Nb Sub Ramdhan Yadav (JC-299298Y), 01 Oct 2007

Nb Sub Raj Kumar (JC-299299F), 01 Oct 2007

Nb Sub Dasharath Singh Yadava (JC-299353K), 01 Oct 2007

Nb Sub Barun Kumar Jha (JC-298820K), 15 Nov 2007/
01 Nov 2007*

Nb Sub Kanwarpal Singh Yadav (JC-299124Y), 13 Nov 2007/01 Nov 2007*

Nb Sub Lalan Rai (JC-299007N), 28 Nov 2007/03 Nov 2007*

Nb Sub Vijay Kumar (JC-299318F), 01 Jan 2008/
20 Nov 2007*

Nb Sub Raj Singh (JC-298414K), 01 Jan 2008/01 Dec 2007*

Nb Sub Jagat Narayan (JC-298452A), 01 Dec 2007

Nb Sub S Sekar (JC-299028K), 07 Jan 2008/01 Dec 2007*

Nb Sub Aswasthama (JC-299059K), 20 Dec 2007/
01 Dec 2007*

Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-299035A), 01 Dec 2007

Nb Sub Sahab Singh (JC-299074Y), 01 Dec 2007

Nb Sub Jas Singh (JC-299061F), 05 Dec 2007/01 Dec 2007*

Nb Sub Vijayan P K (JC-299123W), 01 Dec 2007

Nb Sub Subhash Chand (JC-298184F), 11 Jan 2008/
01 Jan 2008*

Nb Sub Jagat Singh (JC-298398X), 01 Jan 2008

Nb Sub Mewa Ram (JC-298620N), 01 Jan 2008

Nb Sub M Thirunavukkarasu (JC-298812L), 01 Jan 2008

Nb Sub Shyam Singh (JC-298957N), 10 Jan 2008/
01 Jan 2008*

Nb Sub Om Prakash Shukla (JC-299119N), 07 Jan 2008/
01 Jan 2008*

Nb Sub Dharm Chand (JC-299208M), 01 Jan 2008

Nb Sub Sube Singh (JC-299202L), 01 Jan 2008

Nb Sub Kalyan Singh (JC-299219Y), 01 Jan 2008

Nb Sub Ravindra Singh (JC-299315N), 04 Jan 2008/
01 Jan 2008*

Nb Sub Krishna Nath Singh (JC-299147A), 10 Jan
2008/05 Jan 2008*

Nb Sub Lala Ram Yadava (JC-299046M), 01 Feb 2008

Nb Sub Prabhu S (JC-298325L), 01 Feb 2008

*(Gtd ante-date seniority wef)

P. RAMA SASTRY
Under Secy

(FINANCE DIVISION)

No. 214, dated 9th April 2008.—The President is pleased to retire Smt. Neil Kamal Narang, PA(DS), IDAS, Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31-03-2008 (AN) on her attaining the age of superannuation.

R. C. MEENA
Asstt. Financial Adviser(E)

(ARMY BRANCH)

No. 215, dated 10th April 2008.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers (Class X), under SAI 10/S/63 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col Raja Ranjan Munshi (IC-51409), Engrs, 09 Aug
2006

Lt Col Mohan Chander Misra (IC-41855), AOC, 24 Aug
2005(AN)

Lt Col Sanjay Sharma (IC-42591), Inf, 26 Jul 2006(AN)

Lt Col Gautam Kumar Mukherjee (IC-44446), Engrs,
05 Feb 2006(AN)

Lt Col R R Nair (IC-43077), Engrs, 26 Sep 2005(FN)

Lt Col David Arun Kumar Joshua (IC-45229), Engrs,
31 Aug 2005(AN)

Lt Col Burli Srikant Rao (IC-44000), Engrs, 30 Nov
2005(AN)

Lt Col Ashok Kumar Pandey (IC-42723), Engrs, 09 Jan
2006(AN)

Lt Col Chander Pal Singh (IC-43632), Engrs, 15 Feb
2006(AN)

Lt Col Rajeev Sharma (IC-42503), Sigs, 17 Jul 2005(FN)

Lt Col Sachin Burman (IC-48678), Sigs, 24 Nov
2005(AN)

Lt Col T S S Prasad (IC-43101), Sigs, 12 Dec 2005(AN)

Lt Col Ashokan G (IC-49851), Engrs, 10 Sep 2005(AN)

Lt Col Sharma Varinder Kumar (IC-41142), Sigs,
07 March 2005(AN)

Lt Col Tomar Ajay (IC-41654), Sigs, 17 Jan 2006(AN)

Maj Aval Sethi (IC-52542), AC, 01 Apr 2005

Maj Ajay Kumar (IC-54828), Inf, 15 Aug 2005

Lt Col Binod Kumar Jha (IC-41531), Inf, 03 Sep
2005(AN)

Lt Col Gaurav Taneja (IC-49175), Inf, 02 Sep 2005(FN)

Lt Col Deepak Shrivastava (IC-41295), Inf, 08 Nov
2005(AN)

Lt Col R K Singh (IC-44029), EME, 30 Nov 2005(AN)

Lt Col Nar Singh (IC-39633), AC, 31 Jul 2005(AN)

Maj Wak Gladstone (IC-54802), AC, 25 Feb 2006(AN)

Lt Col Tajammul Hoda (IC-40589), AC, 25 Feb
2006(AN)

Lt Col D N Sharma (IC-47550), Engrs, 30 Jun 2007(AN)

Lt Col Vinod Kumar Kotnala (IC-43999), Sigs, 15 Jun
2007(AN)

S. K. CHAKRABORTY
Jt. Dir
MS/PR